

[रौम](#)
[रुमारे बारे में](#)
[संपर्क](#)

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)

आपकी फाइल अपलोड करे Upload Your File

English

भाषा का चयन करे/Select Language

हिंदी/Hindi

नोट: तारिकन (*) से चिह्नित क्शेत्रस अनिवार्य है/Note : Fields marked with asterisk (*) are mandatory

फारम 6A/Form 6A

नियम 8ख देखें/[See rules 8B]

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन/ Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector

सेवा में/To निर्वाचक रजिस्ट्रार/अधिकारी, The Electoral Registration Officer राज्य/State * Select विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/Assembly/Parliamentary Constituency * Select महोदय, Sir, मैं अनुरोध करता हूँ कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र की विषय में नीचे 1(ब) में दिए गए विवरणों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।/I request that my name be included in the electoral roll for the Constituency in which my place of residence, as per the particulars furnished below in 1(h), is located:
1. निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दाने के सम्बन्धन में विवरण

Select

जिला/Select District *

Select

राज्य/Select State *

जन्म की स्थिति/Place of Birth Details

Day

Month

Year

जन्म की तारीख/Date of Birth *

Select Gender from List

लिंग/Gender *

(In regional)

(In English)

उप नाम/Last Name

(In English)
(In Regional)

(In regional)

(In English)

मध्य नाम/Middle Name

(In English)
(In Regional)

(In regional)

(In English)

नाम/First Name *

(In English)
(In Regional)

नीचे दिए गए हैं: /1. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

जन्म का स्थान/Birth Place

ग्राम/नगर/Village/ Town

पिता/माता/ पति का नाम/Father's/Mother's/ Husband's First Name *

(In English)
(In Regional)

Enter name

(In regional)

पिता/माता/ पति का मध्य नाम/Father's/Mother's/ Husband's Middle Name

(In English)
(In Regional)

Enter middle name

(In regional)

पिता/माता/ पति का पत्न नाम/Father's/Mother's/ Husband's Surname

(In English)
(In Regional)

Enter surname

(In regional)

संबंध/Relation *

Select relation

भारत में सामूहिक तौर पर निवास स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता)/Place of present ordinary Residence in India (Full address as given in the passport)

मकान/द्वार सं./House/ Door number

Enter house/door number

पत्नी/पति/परिवेश/ मोहल्ला/सड़क/Street/Area/Locality/ Mohalla/Road *

Enter area

नगर/ग्राम/Village / Town *

Enter village/town

residence

वर्तमान निवास के देश के वीजा का ख्यात/Details of Visa of the Country of current

Day

Month

Year

वर्तमान भारतीय पासपोर्ट की समाप्ति की तारीख/Date of expiry of current Indian passport *

Day

Month

Year

वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख/Date of issue of current Indian passport *

Enter Place of issue of current Indian passport

वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने का स्थान/Place of issue of current Indian passport

Enter passport number

पासपोर्ट संख्या/Passport Number *

पासपोर्ट का ख्यात/Passport Details

Enter email id

ई-मेल आई.डी./Email ID

Enter mobile number

मोबाइल नम्बर/Mobile Number

Select

जिला/Select District *

Enter Tehsil/Taluka

तहसील/तालुका/मंडल/थाना/Tehsil/Taluka/Mandal/Thana *

Enter pin code

पिन कोड/Pin Code *

Enter post office

डाकघर/Post Office *

वह तारीख जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहे हैं।/Date from which

नियोजन/Employment

शिक्षा/Education

अन्य/Other

भारत में सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित होने का कारण/Reason of being absent from the place of ordinary residence

2. भारत में मामूली तौर से निवास स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन/II. Description of Absence from Place Ordinary Residence in India

Enter Name of the Issuing Authority

जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम/Name of the Issuing Authority

Day

Month

Year

वीजा समाप्ति की तारीख/Date of expiry of Visa *

Day

Month

Year

वीजा के जारी होने की तारीख/Date of issue of Visa *

Enter visa issue place

वीजा के जारी होने का स्थान/Place of issue of Visa

Please enter type of visa

Entry/Multiple Entry/Tourist/Work Visa

वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/एक से अधिक प्रवेश/पर्यटक/कार्य वीजा आदि)/Type of Visa (Single

Enter visa number

वीजा संख्या/Visa Number *

absent from ordinary residence in India

तारीख/Enter Date *

Year

Month

Day

3. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं/III. Full residential address in the country outside India where currently residing

Enter full address

4. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आधिकारिक पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं/IV. Full Official address in the country outside India currently residing (नियोजन के स्थान या शिक्षण संस्था का पता, जहां अध्ययन कर रहे हैं)/(address of the place of employment or the education institution where studying)

Enter full address

सहायक दस्तावेज अपलोड करें/Upload Supporting Document

अपना फोटो/Your Photograph *

पासपोर्ट के वैध पृष्ठों/Valid Pages of Passport *

Browse... No files selected.

Browse... No files selected.

5. घोषणा/V. Declaration

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार/ I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: -

- (क) इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य है/ (a) All information given in this application is true.
- (ख) मैं जन्म से/अधिवास से/द्वितीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ/ (b) I am a citizen of India by birth / domicile / naturalisation.
- (ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अधिर्वाप्त नहीं की है/ (c) I have not acquired citizenship of any other country.

- (घ) किसी कपर 2 (क) { मैं दिवंगत से भारत में मेरे मामूली निवास स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं अपने भारतीय पासपोर्ट में दिवंगत से मेरे मामूली निवास पर निवासी रहूँगा, जिसे कपर 1 (ज) { मैं उद्धृत किया गया है/ (d) But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2 (a) above, I would have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1 (h) above.

- (ङ) मैं, अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या किसी अन्य देश की नागरिकता अधिर्वाप्त किए जाने पर अपने वर्तमान निवास के देश में भारतीय सिान के माध्यम से निवर्षक रजिस्ट्रारकी को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ/ (e) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.

- (च) मैं अपने निवास के देश में अपने आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन होने पर निवर्षक रजिस्ट्रारकी अधिकांश के अधिलेख के लिए अपने वर्तमान निवास के देश में भारतीय सिान के माध्यम से निवर्षक रजिस्ट्रारकी को सूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि मेरे निवास पर मेरा गया कोई भी परिवर्तन, जो कि निवर्षक रजिस्ट्रारकी अधिकांश के अधिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरा आवेदन पत्र है, जो कि प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सत्यता की समझी जाएगी, और यह मेरे वर्तमान निवास के देश में अपने वर्तमान निवास के देश में अपने अधिलेख के पत्र की सूचना से निवर्षक रजिस्ट्रारकी को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ/ (f) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made thereunder, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.

- (छ) यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में सामान्य तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं सूचित करूँगा/ (g) If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.

- (ज) मैंने किसी अन्य निवर्षक रजिस्ट्रारकी अधिलेख के पत्र को सूचित किए जाने के लिए

रीट Reset

सेव Save

भेज Submit

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या जो उसे जान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।/Note - Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

रूपान/Place *
Enter place
तारीख/Date *
Year
Month
Day

• मेरा नाम नीचे उल्लिखित राज्य व निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा।/My name may have been included in the electoral roll (ज) मुझे भारत में निर्वाचक कोट्टी परचयन पर (एपिक) { जारी नहीं किया गया है/निर्वाचक कोट्टी परचयन पर (एपिक) { जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है।/ (I) I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.

आवेदन नहीं किया है।/ (h) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.
• (झ) इस या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।/ (i) My name has not already been included in this or any other constituency.